

# Bihar Board Class 8 Science Solutions Chapter 6 घर्षण के कारण

अभ्यास

प्रश्न 1.

कौन-सा गतिशील गेंद की गति को मंद करता है?

उत्तर-

घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है

प्रश्न 2.

घर्षण बल क्या है ?

उत्तर-

किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो हमेशा गति का विरोध करता हो उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल होता है तथा कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता। घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है इसलिए इसे सम्पर्क बल कहते हैं।

प्रश्न 3.

स्थैतिक घर्षण तथा सी घर्षण में अन्तर बताइए।

उत्तर-

जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है। उस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं।

जब कोई एक वस्तु, दूसरे वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को सी घर्षण कहते हैं। सी घर्षण, स्थैतिक घर्षण से कम होता है।

प्रश्न 4.

घर्षण बल की दिशा क्या होती है?

उत्तर-

घर्षण बल की दिशा हमेशा गति के विपरीत होती है।

प्रश्न 5.

जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों

- पक्की समतल सतह पर लम्बी दूरी तय करती है।
- कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है।
- कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है।

उत्तर-

- जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद पक्की समतल सतह पर लम्बी दूरी तय करती है क्योंकि पक्की समतल सतह की प्रकृति चिकनी होती है जिसके कारण घर्षण बल कम लगता है।
- कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी तय करती है क्योंकि यहाँ घर्षण बल ज्यादा लगता है।

3. कंकड़ीली सङ्क की सतह काफी खरदरा है जिसके कारण यहाँ घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है। परिणामस्वरूप गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है।

प्रश्न 6.

जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी?

1. निचली वस्तु की सतह
2. ऊपर गतिशील वस्तु की सतह
3. दोनों वस्तु की सतह।

उत्तर-

3. दोनों वस्तु की सतह।

प्रश्न 7.

खिलाड़ी द्वारा जूतों में काँठी का प्रयोग क्यों किया जाता है?

उत्तर-

काँठी जमीन में धुस जाती है जिसके कारण जूता और जमीन में बहुत अच्छी सम्पर्क स्थापित हो जाता है। परिणामस्वरूप घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिल नहीं पाते हैं तथा अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर पाते हैं।

प्रश्न 8.

घर्षण हानिकारक वस्तु अनिवार्य है। क्यों?

उत्तर-

सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएँ घिस जाती हैं। कपड़ा, जूता, चाकू, पेसिल, पेन, बॉल बेयरिंग आदि घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं। मरीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथक्की चल नहीं पाएंगे। वाहन सङ्क पर दौड़ नहीं पाएंगी। घर्षण के कारण ही वाहनों पें गति संभव है। वाहनों की दिशा परिवर्तन में, कागज पर लिखने इत्यादि ऐसे बहुत कार्य हैं जिसमें घर्षण सहायक होते हैं।

इस प्रकार घर्षण जहाँ हानिकारक है, वहीं अत्यंत लाभकारी भी है। यानि अनिवार्य भी है।

प्रश्न 9.

धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव। जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है?

उत्तर-

तरल पदार्थ (जैस तथा द्रव) में गति करने वाली वस्तुओं की 'आकृति' को विशेष रूप प्रदान किया जाता है जिससे घर्षण के मान को कम किया जाता है। इसी विशेष आकृति को धारा-रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज,

नाव, जहाज की धारा रेखीय आकृति दिया जाता है। ताकि हवा तथा जल से कम से कम अवरोध या घर्षण हो सके। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होता है और आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर पाती है।

प्रश्न 10.

खाली स्थानों को भरें।

1. घर्षण वह बल है जो गति का ..... करता है।
2. चिकनी सतह की अपेक्षा ठखड़ी सतह ..... घर्षण उत्पन्न करती है।
3. कैरमबोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण ..... हो जाता है।
4. तरल घर्षण को ..... कहते हैं।
5. हवाई जहाज की आकृति ..... होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए।

उत्तर-

1. विरोध
2. अधिक
3. कम
4. कर्षण
5. धारा रेखीय

प्रश्न 11.

नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य ?

1. जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती
2. घर्षण के कारण ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न होती है।
3. वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है।
4. ट्यूब के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है।

उत्तर-

1. असत्य
2. सत्य
3. सत्य
4. सत्य।